



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 206]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 14, 1978/आषाढ़ 23, 1900

No. 206]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 14, 1978/ASADHA 23, 1900

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 1978

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 363(घ):—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 198/76 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 16 जून, 1976 में निम्नलिखित संशोधन और करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में क्रम सं० 18 और 19 तथा उनसे सम्बद्ध प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

[सं० (141/78 के० उ० शु०)]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th July, 1978

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 363(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, Department of Revenue and Banking, No. 198/76-Central Excises, dated the 16th June, 1976, namely:—

In the Table annexed to the said notification, Serial Nos. 18 and 19 and the entries relating thereto shall be omitted.

[No. 141/78-CE]

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 364(घ):—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय [उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मव सं० 16(1) और 16(3) में सम्मिलित टायर और ट्यूबों को, फ्लैप को छोड़कर, (जिसे इसमें इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट माल कहा गया है) उन पर उद्ब्रूणीय उत्पाद-शुल्क के उसने भाग से [उक्त नियम 8 के उपनियम (1) के अधीन जारी की गई और तत्समय प्रवृत्त किसी अधिसूचना के साथ पठित] छूट देती है, जो—

(क) यदि विनिर्दिष्ट माल ऐसे कारखाने में उत्पादित किया गया है, जिसने विनिर्दिष्ट माल का उत्पादन 1 अप्रैल, 1976 से पूर्व आरंभ किया है, ऐसे शुल्क के साढ़े सत्तासी प्रतिशत से अधिक है; और

(ख) यदि विनिर्दिष्ट माल ऐसे कारखाने में उत्पादित किया गया है, जिसने विनिर्दिष्ट माल का उत्पादन 1 अप्रैल, 1976 को या उसके पश्चात् आरंभ किया है, ऐसे शुल्क के पञ्चहत्तर प्रतिशत से अधिक है;

उपरोक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए दी जाएगी अर्थात्:—

(क)(i) जहां विनिर्दिष्ट माल का उत्पादन किसी ऐसे कारखाने में किया जाता है जिसकी वार्षिक अनुसूचित क्षमता या वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता समान है वहां तकनीकी विकास महानिदेशालय के विकास अधिकारी द्वारा यथा प्रमाणित ऐसी अनुसूचित क्षमता या अधिष्ठापित क्षमता पांच लाख टायरों और पांच लाख ट्यूबों से अधिक न हो; या

(ii) जहाँ विनिर्दिष्ट माल का उत्पादन किसी ऐसे कारखाने में किया जाता है जिसकी वार्षिक अनुज्ञप्त क्षमता वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता से भिन्न है, वहाँ तकनीकी विकास महानिदेशालय के विकास अधिकारी द्वारा यथा प्रमाणित उसकी अनुज्ञप्त क्षमता या अधिष्ठापित क्षमता, दोनों में से जो भी कम हो, पांच लाख टायरों या पांच लाख ट्यूबों से अधिक न हो ;

(ख) वित्त वर्ष 1978-79 के लिए विनिर्दिष्ट माल को अनुज्ञप्त क्षमता के पचहत्तर प्रतिशत से अधिक को ही वेश के भीतर उपयोग के लिए निकासी किए जाने पर इस अधिसूचना के अधीन छूट का हक होगा ।

स्पष्टीकरण:—वित्त वर्ष 1978-79 के लिए वेश के भीतर उपयोग के लिए विनिर्दिष्ट माल की अनुज्ञप्त क्षमता के पचहत्तर प्रतिशत की निकासी की संगणना करते समय 1 अप्रैल, 1978 को प्रारंभ हो कर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के पूर्ववर्ती दिन तक की रुद्धि के दौरान विनिर्दिष्ट माल की वह मात्रा भी गणना में ली जाएगी जिसको बाबत भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 198/76 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 16 जून, 1976 के अधीन रियायती दर पर शुल्क प्रभारित किया गया है ।

2. यह अधिसूचना 31 मार्च, 1979 तक, जिसमें यह तारीख भी है, प्रवृत्त रहेगी ।

[सं० 142/78-के० उ० शु०]

लज्जा राम, उप सचिव

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 364(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts tyres and tubes, excluding flaps, falling under Item Numbers 16(1) and 16(3) of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) [hereinafter referred to as the specified goods], from so much of the duty of excise leviable thereon [read with any relevant notification issued under the said sub-rule (1) of rule 8 and in force for the time being], as is in excess of—

(a) eighty-seven and a half per cent. of the such duty, if produced in any factory which commenced production of the specified goods for the first time earlier than the 1st day of April, 1976; and

(b) seventy-five per cent of such duty, if produced in any factory which commenced production of the specified goods for the first time on or after the 1st day of April, 1976,

subject to the conditions that—

(a) (i) where the specified goods are produced in a factory whose annual licensed capacity or annual installed capacity is the same, such licensed capacity or installed capacity, as certified by the Development Officer of the Directorate General of Technical Development does not exceed five lakh numbers of tyres and five lakh numbers of tubes, or

(ii) where the specified goods are produced in a factory whose annual licensed capacity is different from the annual installed capacity, such licensed capacity or installed capacity, whichever is lower, as certified by the Development Officer of the Directorate General of Technical Development, does not exceed five lakh numbers of tyres and five lakh numbers of tubes;

(b) clearances of the specified goods for home consumption not exceeding seventy-five per cent of the licensed capacity for the financial year 1978-79 shall only be entitled for exemption under this notification.

Explanation.—In calculating clearances of the specified goods for home consumption to the extent of seventy-five per cent of the licensed capacity for the financial year 1978-79, quantities of the specified goods, if any, in respect of which concessional rate of duty had been charged under the notification of the Government of India, Department of Revenue and Banking No. 198/76-Central Excises, dated the 16th June, 1976 during the period commencing on the 1st day of April, 1978 and ending with the day preceeding the date of publication of this notification in the Official Gazette shall also be taken into account.

2. This notification shall remain in force upto and inclusive of the 31st day of March, 1979.

[No. 142/78-CE]

LAJJA RAM, Dy. Secy.